



IndiaMART InterMESH Ltd.
6th floor, Tower 2, Assotech Business Cresterra,
Plot No.22, Sec 135, Noida-201305, U.P.
Call Us: +91 - 9696969696
E: customer@indiamart.com
Website: www.indiamart.com

October 20, 2024

To,
BSE Limited
(BSE: 542726)

National Stock Exchange of India Limited
(NSE: INDIAMART)

Subject: Intimation of Publication of Audited Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2024

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of the advertisements published in the following newspapers on October 20, 2024 with respect to Audited Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2024:

- The Financial Express (English Language National Daily Newspaper – All India); and
- Jansatta (Hindi Language Daily Newspaper – Delhi).

The copies of newspaper advertisements are also available on the Company's website at <https://investor.indiamart.com/CorporateAnnouncements.aspx>

Kindly take the same on your records.

Yours faithfully,
For IndiaMART InterMESH Limited

(Manoj Bhargava)
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No: F5164

Encl: As above

HDFC Bank Q2 profit rises 5% to ₹16,820 cr

SACHIN KUMAR
Mumbai, October 19

BEATING ANALYST EXPECTATIONS, the country's largest private lender HDFC Bank on Saturday announced a 5% year-on-year rise in net profit to ₹16,820 crore in the second quarter of the current financial year, driven by healthy growth in deposits and advances.

Analysts polled by *Bloomberg* had estimated the bank to post ₹16,284 crore net profit in the quarter.

Net interest income, the difference between interest earned and paid, rose 10% to ₹30,110 crore in the second quarter of the current fiscal from ₹27,385 crore in the same quarter of the previous fiscal.


"The bank has a desire to grow its market share on deposits," said Srinivasan Vaidyanathan, chief financial officer, HDFC Bank.

"Historically, we have had incremental deposit share of 15-18%. Quarter-to-quarter we see some changes in deposit accretion," said Vaidyanathan in an earnings call.

"We have always tried to capture what is available in the market," he added.

At the time when banks are struggling with muted deposit growth, the bank grew deposits higher than its advances.

Total deposits rose 15%



from last year to ₹25 lakh crore. Current account, savings account deposits accounted for 35.3% of total deposits as of September 30.

Gross advances for HDFC Bank rose 7% year-on-year to ₹25.2 lakh crore.

Retail loans rose 11.3%, commercial and rural banking loans were up 17.4%, while wholesale loans were up 12%.

Commenting on the sale of over ₹19,000 crore worth of loans in the second quarter, Vaidyanathan said this was part of a strategic move by the lender.

HDFC Bank would continue to use asset sales going

ahead depending on the amount of appetite in the market.

Net interest margins of the bank remained stable at 3.5% in the second quarter compared to 3.4% in the same quarter a year ago.

Other income (non-interest revenue) for the quarter ended September 30, 2024, was ₹11,480 crore as against ₹10,710 crore in the corresponding quarter ended September 30, 2023, registering a growth of 7%.

The bank's asset quality deteriorated, with the gross non-performing assets ratio increasing to 1.36% as of September 30, compared to

1.34% in the same quarter a year ago.

Provisions of the lender stood at ₹2,700 crore in the second quarter of this year, compared to ₹3,310 crore in Q2FY24.

CASA (current account saving account) deposits grew by 8.1% with savings account deposits at ₹6.08 lakh crore and current account deposits at ₹2.75 lakh crore.

Time deposits were at ₹16.16 lakh crore, an increase of 19.3% over the corresponding quarter of the previous year, resulting in CASA deposits comprising 35.3% of total deposits as of September 30, 2024.

Kotak Mahindra Bank reports 5% rise in standalone profit

ANUPREKSHA JAIN
Mumbai, October 19

KOTAK MAHINDRA BANK'S standalone profit rose 5% to ₹3,344 crore in the second quarter of current fiscal from ₹3,191 crore in the same quarter previous year, helped by healthy growth in net interest income and improvement in asset quality.

The net profit was below expectations as Bloomberg analysts expected the lender to post ₹3,424 crore net profit in the second quarter.

Despite higher provisions, the bank's net interest income rose 11% to ₹7,020



crore. Meanwhile, provisions for the quarter were at ₹660 crore, up 80%.

At the same time, the net interest margin (NIM) of the private sector lender com-

pressed to 4.91% from 5.22% a year ago.

Addressing the reason behind the fall in NIM, Devang Gheewalla, the group chief financial officer at the Kotak Mahindra Bank said in the post result virtual conference, "So far this quarter, our NIM has fallen 11 basis points (bps) mainly because of slowdown in unsecured business due to the embargo. This has affected our earnings on assets, thereby impacting the NIM."

Due to the Reserve Bank of India's embargo, the bank's credit card book has not experienced growth. Management indicated that 30-40% of

slippage in Q2 FY25 originated from credit cards. They also expressed interest in pursuing more inorganic acquisitions to expand their customer base, provided these opportunities align with their criteria.

The bank's advances increased 17% year-on-year to ₹4.2 lakh crore as on September 30. Unsecured retail advances as a percentage of net advances were 11.3%. Total deposits rose 16% to ₹4.46 lakh crore. The current account-savings account ratio was 43.6% at the end of September against 43.4% a quarter ago.

IN THE NEWS

RBL BANK Q2 NET PROFIT FALLS 24% TO ₹223 CRORE

RBL BANK ON Saturday reported a 24% decline in net profit in the September quarter to ₹223 crore on asset quality challenges emanating from credit card and microlending books. The private sector lender had reported a post-tax net profit of ₹294 crore in the year-ago period, and ₹372 crore in the preceding June quarter.

PUNJAB & SIND BANK Q2 NET UP 26% AT ₹240 CR

STATE-OWNED PUNJAB & Sind Bank on Saturday reported a 26% rise in net profit to ₹240 crore in the September quarter on the back of reduction in bad loans. The lender had recorded a net profit of ₹189 crore in the same quarter a year ago.

UCO BANK POSTS 50% JUMP IN Q2 PROFIT AT ₹603 CR

STATE-OWNED UCO Bank on Saturday posted a 50% jump in net profit to ₹603 crore in the September quarter, helped by improvement in interest income. The lender had recorded a net profit of ₹402 crore in the same quarter a year ago.

AGENCIES

Dhanlaxmi Bank posts Q2 profit of ₹26 crore

FE BUREAU
Chennai, October 19

DHANLAXMI BANK has posted a net profit of ₹25.81 crore for the second quarter compared to ₹23.16 crore of net profit in the corresponding quarter of the previous fiscal.

The Thrissur, Kerala-headquartered bank's total income rose by 16.25% year-on-year to ₹380.64 crore during Q2FY25. Interest income registered a 8% YoY increase to ₹328.83 crore while other income saw a 120.19% jump to ₹51.81 crore.

The bank's total business stood at ₹25,650 crore as of September 2024 quarter. Of this, total deposits were at ₹14,631 crore while gross advances stood at ₹11,018 crore.

AETHER INDUSTRIES LIMITED
www.aether.co.in

AETHER INDUSTRIES LIMITED
Registered and Corporate Office: Plot No. 8203, GIDC Sachin, Surat-394230, Gujarat, India. Website: www.aether.co.in, Email: compliance@aether.co.in
Corporate Identification Number (CIN): L24100GJ2013PLC073434

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended on September 30, 2024

(Rupees in million except as stated)

Sl. No.	Particulars	Standalone					Consolidated				
		Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
1	Total Income	2091.42	1919.75	4011.17	3430.99	6399.33	2097.71	1919.75	4017.46	3416.71	6373.80
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	551.25	426.57	977.82	868.23	1277.78	518.52	423.43	941.95	853.12	1232.74
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	517.93	396.53	914.47	868.23	1140.17	485.20	393.39	878.60	853.12	1095.12
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	380.71	302.46	683.17	680.01	880.98	347.99	299.32	647.30	664.90	824.90
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	380.03	302.49	682.52	677.74	877.64	347.31	299.35	646.65	662.63	821.57
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10 each)	1325.58	1325.50	1325.58	1325.24	1325.50	1325.58	1325.50	1325.58	1325.24	1325.50
7	Earnings per Equity Share (Rs.)										
	Basic	2.87	2.28	5.15	5.13	6.74	2.63	2.26	4.88	5.02	6.31
	Diluted	2.87	2.28	5.15	5.13	6.74	2.63	2.26	4.88	5.02	6.31

Notes:

- The above unaudited financial results have been approved by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors in their respective meetings held on October 18, 2024. These unaudited financial results of the Company are prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("referred to as Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and the provisions of the Companies Act, 2013.
- The Statutory Auditors of the Company have conducted audit of the above financial results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2024. An unqualified opinion has been issued by them thereon.
- The above results of the Company are available on the Company's website, www.aether.co.in and also on the website of the BSE Limited, www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited, www.nseindia.com, where the shares of the Company are listed.
- Revenue by Business Models:

Business Model	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2023	31.03.2024
	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(unaudited)	(audited)
Large Scale Manufacturing	1,120.17	1,185.39	751.69	2,305.55	1,771.95
Contract Manufacturing	537.59	326.37	644.59	863.96	962.80
Contract Research And Manufacturing Services (CRAMS)	276.16	256.85	227.78	533.01	478.35
Others	30.53	31.54	17.62	62.07	39.86
Total revenue	1,964.45	1,800.15	1,641.69	3,764.59	3,252.76

* The Company has single segment of manufacturing of Speciality Chemicals and Intermediates and there are no other segments.

- The equity shares and basic / diluted earnings per share for the comparative period (quarter and period ended September 30, 2024) has been presented in accordance with Ind AS 33 - Earnings per share.
- During Q3 of FY24, a fire broke out at Manufacturing Facility 2 of the Company, located in GIDC, Sachin, Surat. The Gujarat Pollution Control Board (GPCB) had issued a closure notice for the said facility and also collected Rs. 5.00 million as interim environmental damage compensation. The Company has intimated the loss of Fixed Assets, Stock and Loss of Profit to the insurance company. The process of assessing the actual physical damage to the fixed assets (like plant & machinery, equipment, office equipment, furniture & fixtures etc.) owing to the fire is still being assessed and hence no effect of any loss due to fire is accounted towards fixed assets in the quarter and year ended September 30, 2024. The damage due to loss of inventories (mostly Semi Finished and Finished Goods at the shop floor / in production) has been assessed at Rs. 138.97 million and is provided in the quarter and year ended September 30, 2024, the claim for the same is also submitted to the surveyor and expected to be received by the Company in Q3 of FY25. The remaining claim for the fixed assets will be submitted in Q3 of FY25, when the restatement of Fixed Assets is completed.
- The exceptional items mentioned in the above financial results during the quarter and half year ended September 30, 2024 are in the nature of excess Insurance Premium due to the Insurance Claim and other related expenses. We have netted off the sales of scrap of fixed assets, which were damaged in the fire accident, from such exceptional items.
- Previous period's / year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to confirm with the current period's / year's classification / disclosure.

For and on behalf of the Board of Directors

Ashwin J. Desai
Managing Director
(DIN: 00038386)

Place: Surat
Date: October 18, 2024

indiamart
IndiaMART InterMESH Limited
CIN: L74899DL1999PLC101534
Regd. office :- 1st Floor, 29-Daryaganj, Netaji Subhash Marg, Delhi-110002, India
Phone : (+91) (11) 3027 2100, E-mail : cs@indiamart.com, Website : www.indiamart.com
Extract of Statement of Audited Consolidated Financials Results for the quarter and six months period ended September 30, 2024 (INR Million except per share data)

Particulars	Quarter ended			Six Months ended			Year ended
	September 30, 2024 Audited	June 30, 2024 Audited	September 30, 2023 Audited	September 30, 2024 Audited	September 30, 2023 Audited	March 31, 2024 Audited	
1. Total Income	4,132	3,845	3,293	7,977	6,685	14,074	
2. Income from operations	3,477	3,313	2,947	6,790	5,768	11,968	
3. Net Profit for the period/year (before Tax, but after share of associate)	1,773	1,514	933	3,287	2,057	4,544	
4. Net Profit for the period/year after tax	1,351	1,140	694	2,491	1,525	3,340	
5. Total comprehensive income for the period/year [comprising profit for the period/year (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1,345	1,155	703	2,500	1,533	3,333	
6. Equity Share Capital	600	600	599	600	599	599	
7. Other equity (excluding revaluation reserves, if any)						16,762	
8. Basic and diluted earnings per share (Face Value of INR 10 each) (In INR.)							
Basic EPS	22.54 (Not annualised)	19.00 (Not annualised)	11.36 (Not annualised)	41.54 (Not annualised)	24.96 (Not annualised)	55.18 (Not annualised)	
Diluted EPS	22.48 (Not annualised)	18.96 (Not annualised)	11.34 (Not annualised)	41.43 (Not annualised)	24.91 (Not annualised)	55.04 (Not annualised)	

Notes

- The above consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time.
- The above information is an extract of the detailed format of audited consolidated financial results filed by the company with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above financial results are available on the Stock Exchange websites, (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.indiamart.com.
- The summary of the audited standalone financial results of the Company for the quarter and six months period ended September 30, 2024 is given below:-

Particulars	Quarter ended			Six Months ended			Year ended
	September 30, 2024 Audited	June 30, 2024 Audited	September 30, 2023 Audited	September 30, 2024 Audited	September 30, 2023 Audited	March 31, 2024 Audited	
Total Income	3,940	3,659	3,131	7,599	6,344	13,086	
Income from operations	3,318	3,153	2,807	6,471	5,483	11,390	
Net Profit before tax	1,756	1,616	1,068	3,372	2,308	4,746	
Net Profit after tax	1,270	1,240	829	2,510	1,782	3,621	

For and on behalf of the Board of Directors
IndiaMART InterMESH Limited
Sd/-
Dinesh Chandra Agarwal
(Managing Director and Chief Executive Officer)

Place : Noida
Date : October 19, 2024

यूको बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
Honours Your Trust

Head Office : 10, B.T.M. Sarani, Kolkata – 700 001

Easy, Efficient and Effective
that's our Promise

UCO Home Loan
EMI ₹2605
ROI 8.30% p.a.

UCO Car Loan
ROI 8.45% p.a.

PINK BASKET
₹50 AMBITION Banking Service
₹50 JPM LACROSSE Cricket Account
₹50 MACHINERY (₹100-₹1)

UCO 333
Get higher returns with our Special Edition Fixed deposit
7.55% p.a.

UCO SAMANVAY SCHEME
Takeover your worries, Grow Your Business
ROI 8.55%

1800-103-6123 7666399400 8334001234 Missed Call for CKYC Card : 7799022129

Total Business 13.56% (Y-o-Y) Advances 18% (Y-o-Y) Deposit 10.57% (Y-o-Y) Net Profit 50% (Y-o-Y) Operating Profit 45.82% (Y-o-Y) NII 20.03% (Y-o-Y) PCR 95.92% GNPA 3.18% Net NPA 0.73%

UNAUDITED (REVIEWED) FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH SEPTEMBER 2024 (₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2024 (Reviewed)	Quarter Ended 30.09.2023 (Reviewed)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from Operations (net)	707143	586561	2511987
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	93876	63979	256885
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	93876	63979	256885
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	60274	40167	165374
5	Total Comprehensive income for the period (comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	Refer Note 2		
6	Paid Up Equity Share Capital	1195596	1195596	1195596
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves)	1240327	1100525	1240327
8	Securities Premium Account	362571	362571	362571
9	Net Worth	1751785	1499770	1625385
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	0.09	0.06	0.08
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
12	Debt Equity Ratio	0.77	1.24	0.93
13	Earning Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
	1. Basic :	0.50	0.34	1.38
	2. Diluted :	0.50	0.34	1.38
14	Capital Redemption Reserve	-	-	-
15	Debt Redemption Reserve	-	-	-
16	Debt Service Coverage Ratio			
17	Interest Service Coverage Ratio			

Notes : 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/ half-yearly financial results filed with the Stock Exchanges under regulation 33 and 52 of the Listing Regulations. 2. Information relating to total comprehensive income and other comprehensive income is not furnished as Ind AS is not yet made applicable to the bank.

For UCO Bank

Place : Kolkata
Dated : 19th October, 2024

Sd/-
Vijaykumar Nivrutti Kamble
Executive Director

Sd/-
Rajendra Kumar Saboo
Executive Director

Sd/-
Ashwani Kumar
Managing Director & CEO

Sd/-
Aravamudan Krishna Kumar
Chairman

Follow us : www.ucobank.com

